

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

4503. श्री रामचन्द्र शीरपा : क्या कम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल तथा डिस्पेंसिरिया खोलने के बारे में अब तक किन्ती प्रगति हुई; और

(ख) इस काम पर अब तक किन्ता धन खर्च किया गया है ?

जब तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) अस्पताल : 170 पल्लों वाला एक अस्पताल धीर एस०डी०टी०जी० सैनीटोरियम से संलग्न किया गया 32 पल्लों का एक कक्ष बंगलौर में कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं। इस अस्पताल में 130 और पल्लों इस्तेमाल के लिये तैयार हैं और अन्त में पल्लों की संख्या 420 तक पहुँच जायेगी। इटैली में 24 पल्लों के एक छोटे अस्पताल का निर्माण कार्य भी शुरू है तथा बंगलौर में 150 पल्लों के एक और अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

दवाखाने : उसतूर में एक दवाखाने का निर्माण किया जा रहा है तथा बंगलौर के राजाजीनगर में दूसरे दवाखाने के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। बन्नीपेट, मूलार्ह, यक्षवन्ध्यापुर तथा हुबली में 4 और दवाखानों के निर्माण के लिये जमीन बजूर (अजित) की गई है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों (अनुबद्ध कर्मों) दवाखानों इत्यादि के निर्माण के लिये अब तक बजूर की गई धन राशि 1,03,31,820.77 रु० है। इस में से राज्य सरकार की, जिस के द्वारा कि निर्माण कार्य कराया जाता है, अब तक 56,37,865.77 रु० की धरावची की जा चुकी है।

Theft of wire in Orissa

4504. श्री E. E. Singh Deb:
Shri D. N. Deb:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that telegraph and telephone lines are frequently out of order due to theft of wire in Orissa,

(b) if so the action taken in the matter so far, and

(c) if the reply to part (a) be in the negative, the reasons for frequent dislocations?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri L. K. Gujral):
(a) Yes

(b) (i) The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act 1950 is being amended to provide heavier penalties

(ii) Departmental Officers have been maintaining closer liaison with local Police authorities.

(iii) The Chief Minister of the State has been addressed demi-officially to take steps to prevent thefts.

(iv) Gradually on important routes copper wires are being replaced by copper coated steel wires to reduce the incidence of thefts.

(c) Does not arise

Aid to Libraries in Gujarat

4506. Shri Narendra Singh Mahida: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the names of public Libraries and School and College Libraries in the State of Gujarat which received financial assistance from the Central Government during 1966-67; and

(b) the amounts proposed to be given for the same purpose during 1967-68?